

## नकली पान मसाला फैक्ट्री पकड़ी, 3 गिरफ्तार 7 क्विल कच्चा माल व चार मशीन जब्त की

Sikar News - धोद व लोसल थाना पुलिस ने गुरुवार शाम को कांसली गांव में अवैध पानमसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए तीन जनों को...

Feb 14, 2020, 11:46 AM IST



धोद व लोसल थाना पुलिस ने गुरुवार शाम को कांसली गांव में अवैध पानमसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए तीन जनों को गिरफ्तार कर चार मशीनें जब्त की। मौके से करीब सात क्विल कच्चा माल भी बरामद किया है। इस फैक्ट्री में बाजार में बिकने वाले तानसेन, विमल व दिलबाग के पाउच अवैध रूप से भरे जा रहे थे। बाजार में असली माल की खपत कम होने के कारण कंपनी की ओर से एसपी को शिकायत की गई थी। इस पर सीओ ग्रामीण राजेश आर्य के नेतृत्व में धोद व लोसल थाना पुलिस ने टीम ने छापा मारा।

सीओ राजेश आर्य ने बताया कि धर्मेद्र सिंह (25) पुत्र मगन सिंह, अम्बिका राय (28) पुत्र घनश्याम प्रसाद राय, भान सिंह (22) पुत्र भल्लू सिंह सभी निवासी एमपी को गिरफ्तार किया है। गांव में काफी समय से नकली पान मसाला बनाकर बेचने की शिकायत मिल रही थी। इसके लिए लोसल थाना अधिकारी घासीराम व धोद थानाधिकारी अमित कुमार सहित 10 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई गई। फैक्ट्री से भारी मात्रा में विमल, तानसेन और दिलबाग आदि नामों से पैक किया हुआ नकली पान मसाला, कच्चा माल और पैकिंग रोल सहित अन्य सामग्री जब्त की है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि इस फैक्ट्री को सांवरमल सैनी के द्वारा संचालित किया जा रहा था। कुछ समय पूर्व ही सांवरमल जेल से छूटकर आया है। दो साल पहले भी सांवरमल को नामी ब्रांड की कंपनियों का नकली माल बना कर बाजार में बेचने के मामले में गिरफ्तार किया था।

अवैध पान मसाला फैक्ट्री से पकड़े गए आरोपी।

**Source:** <https://www.bhaskar.com/rajasthan/sikar/news/rajasthan-news-fake-pan-masala-factory-caught-3-arrested-7-quintals-of-raw-material-and-four-machines-seized-114632-6620222.html>